

Class-2
Summer Holidays Homework

ENGLISH

All the work is to be done in a thin note book

1. Cursive Writing book from Pg.4 -30 in neat and beautiful writing.
2. Select and write any 20 Naming words. Make simple sentences with the help of those words.
3. Raintree Course book:
 - a. Draw and write a small paragraph on “ Things we should do in a park” (for guidelines refer to pg– 11).
 - b. Draw a firefly (pg– 22) and write 5 lines on it.
4. Grammar book :Learn and do the exercises of ch-24 .

हिंदी

- सप्ताह में दो बार श्रुतलेख लेकर संशोधन कार्य करना |
(कुल 30 शब्द) (एक पतली कार्य पुस्तिका में) |
- कालांशपरीक्षा – प्रथम सामयिक परीक्षा (P.T 1) के लिए पूरा पाठ्यक्रम दोहराइए
- शौर्या हिन्दी सुलेख भाग –2—पृष्ठ 1 से 20 तक सुंदर –सुंदर लेख में लिखिए |
- “मेरा भारत महान”से संबंधित चित्र चार्ट पेपर पर बनाकर अथवा चिपकाकर दस वाक्य लिखिए

MATHS

1. Do two sums daily of addition in a separate thin notebook.
2. Make the following according to your roll no. Make the following shapes / patterns on a dot grid on A4 size pastel sheet (Roll no.1-10)
 - A) Star
 - B) Leaf
 - C) Kite
3. Make a Calendar (2019) and colour the birth date of your family members with different colours. (Roll no. 11-20) .Material required for making calendar:
 - A-3 size sheet
 - Card board
 - Decorative material

Procedure: Take A-3 size sheet and paste it on the card board, draw boundary and write dates on it. Decorate it by using decorative material.

4. Draw a number board and show the table of 4 and 5 with two different colours on A4 size pastel sheet. (Roll no. 21-30)
5. Make any object of your choice using plane shapes on half chart paper. (Rollno. 31-35)

LIFE SKILLS

1. Make a Model of any one type of House according to your Roll no.

- 1-10 : Igloo/Stilt House
- 11-20 : House boat/ Caravan
- 21-30 : Tent House/ Kutcha house
- 31-35 : Sky scraper/ Pucca house

2. Make the following as per your roll numbers:

- 1 - 15 : Body Parts
- 16 - 30 : Flash cards on sense organs
- 31 - 35 : Chart of the exercises to keep our body healthy.

Art/ Craft

Wonder of Art Page no. - 13,44 & 46